



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 330]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 1965/पौष 3, 1887

No. 330]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 1965/PAUSA 3, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December 1965

S.O. 3983.—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Goa, Daman and Diu (Laws) Regulation, 1962 (12 of 1962) the Central Government hereby makes the following order namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This order may be called the Goa, Daman and Diu (Removal of Difficulties) Order 1965.

(2) It shall come into force at once.

2. **President to be deemed to be a registered shareholder in respect of certain shares.**—As from the 20th December 1961, the President shall be deemed to have been a registered shareholder in respect of the shares held by the erstwhile Government of Goa in the company known as ESTALEIROS NAVAIS DE GOA and the President shall be deemed to have, for all purposes, the rights and privileges of a shareholder of that company.

[No. F. 15/1/64-GP.]

A. D. PANDE, Jt. Secy.

(1335)

